

Num

Chapter 5

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 1
और-बोला और-बोला से- यहोवा और-बोला से- मूसा कहते-हुए
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

צוֹ אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁלַח אֹתָם מִן-הַמִּצְרָיִם כָּל-זָרוֹעַ וְכָל-אֶבְרָם 2
आज्ञा-दे को- पुत्रों-को इस्राएल-के और-भेज-दें से- छावनी सब- कोढ़ी और-सब- साव-वाला
H6680 H0853 H3478 H7971 H4264 H3605 H6879 H3605 H2100

וְכָל-טָמֵא לְנַפְשׁוֹ: 3
और-सब अशुद्ध प्राण-के-लिए
H3605 H2931 H5315

“मैं इस्राएल के लोगों को, उनके डेरे बीमारियों व रोगों से मुक्त रखने का आदेश देता हूँ। इस्राएल के लोगों से कहो कि हर उस व्यक्ति को जो बुरे चर्म रोगों, शरीर से निकलने वाले स्रावों या किसी शव को छूने के कारण अशुद्ध हो गये हैं, उन्हें डेरे से बाहर निकाल दें,

מִזְכָּר עַד-נִקְבָה תְּשַׁלְּחוּ אֶל-מַחוּץ לַמִּצְרָיִם וְלֹא יִטְמְאוּ אֶת- 3
से-पुरुष तक- स्त्री भेज-दो और-नहीं और-सब-को को- अशुद्ध-करें और-नहीं भेज-दो-उन्हें छावनी-के बाहर- के- भेज-दो स्त्री तक- से-पुरुष
H2145 H5704 H5347 H7971 H0413 H2351 H4264 H7971 H3808 H0853 H10853

מִחַיִּיחָם שָׁכַן בְּתוֹכָם: 4
छावनी-उनकी में मैं जहाँ निवास-करता-हूँ उनके-बीच
H4264 H0589 H7931 H8432

चाहे वे पुरुष हो चाहे स्त्री। उन्हें डेरे से बाहर निकाल दें ताकि वे जिस डेरे में मेरा निवास है उसे वे अशुद्ध न कर दें। मैं तुम्हारे डेरे में तुम लोगों के बीच रह रहा हूँ।”

וַיַּעֲשֵׂה-כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁלַחוּ אוֹתָם אֶל-מַחוּץ לַמִּצְרָיִם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר 4
और-किया- पुत्रों-ने इस्राएल-के और-भेज-दिया उन्हें के- बाहर- छावनी-के जैसा बोला-था
H1696 H3478 H7971 H0853 H0413 H2351 H4264 H10853 H1696

יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה כֵּן וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-יְהוָה: 5
यहोवा-ने से- मूसा वैया वैया पुत्रों-ने इस्राएल-के
H3068 H0413 H4872 H3478 H4872

अतः इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर का आदेश माना। उन्होंने उन लोगों को डेरे के बाहर भेज दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 5
और-बोला और-बोला से- यहोवा और-बोला से- मूसा कहते-हुए
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

דִּבֶּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֶת-אִשְׁתּוֹ כִּי יַעֲשׂוּ מִכְּלָם 6
बोल से- पुत्रों-से इस्राएल-के पुरुष या- स्त्री जब करें किसी-भी- पाप-में-से मनुष्य-के
H1696 H0802 H3478 H3068 H0413 H0802 H3478 H0802 H0802 H0120 H3605

לְמַעַל בְּיָדָם וְלְמַעַל בְּיָדָם: 7
विश्वासघात-करके विश्वासघात और-दोषी-हो यहोवा-के-विरुद्ध विश्वासघात वह
H4603 H4604 H3068 H0816 H5315 H1931

“इस्राएल के लोगों को यह बताओ: जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ बुरा करता है तो वस्तुतः वह यहोवा के विरुद्ध पाप करता है। वह व्यक्ति अपराधी है।

7
 בְּרֵאשִׁית אֲשֶׁמוּ אֶת-קַטְאֲתָם אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה לְאִישׁ אֶת-וְהִתְנַחֵם
 पूर्ण-रूप-से दोष-मूल्य-उसका को- और-लौटाए किया-उन्होंने जो पाप-अपना को- और-अंगीकार-करें
[H0817](#) [H0853](#) [H7725](#) [H0853](#) [H3034](#)

וְחַמֵּישָׁתוּ יִסַּף עָלָיו וְנָתַן לְאִשָּׁר אֲשָׁם לוֹ:
 और-पाँचवाँ-भाग जोड़े उस-पर और-दे उसके दोषी-हुआ जिसके-प्रति

[H0816](#) [H5414](#) [H3254](#) [H2549](#)

इसलिए वह व्यक्ति लोगों को अपने किए गए पाप को बताए। तब यह व्यक्ति अपने बुरे किए गए काम का पूरा भुगतान करे। वह भुगतान में पाँचवाँ हिस्सा जोड़े और उसका भुगतान उसे करे जिसका बुरा उसने किया है।

8
 וְאִם-לֹא-יִשָּׂא אִין לְאִישׁ נֹאֵל לְהָשִׁיב הָאָשָׁם אֵלָיו הַמּוֹשֵׁב
 और-यदि- नहीं-हो पुरुष-के-लिए छुड़ानेवाला लौटाने-के-लिए दोष-मूल्य उसको दोष-मूल्य लौटाय-गया
[H7725](#) [H0817](#) [H0413](#) [H0817](#) [H7725](#) [H0376](#) [H0369](#)

לְיֵהוּוָה לְכַהֵן מִלְבָּר אֵיל הַכִּפְרִים אֲשֶׁר יְכַפֵּר-בּוֹ עָלָיו:
 यहोवा-के-लिए याजक-के-लिए अलग-से मेढ़ा जिससे प्रायश्चित-करे- उससे उसके-लिए
[H3725](#) [H0905](#) [H3548](#) [H3068](#)

किन्तु जिस व्यक्ति का उसने बुरा किया है, वह मर भी सकता है और सम्भव है उस मृतक का कोई नजदीकी सम्बन्धी न हो जिसे भुगतान किया जाए। उस स्थिति में, बुरा करने वाला व्यक्ति यहोवा को भुगतान करेगा। वह व्यक्ति पूरा भूतगन याजक को करेगा। याजक को क्षमादान रुपी मेढ़े की बली देनी चाहिए। बुरा करने वाले व्यक्ति के पापों को ढकने के लिए इस मेढ़े की बलि दी जानी चाहिए किन्तु याजक बाकी बचे भुगतान को अपने पास रख सकता है।

9
 וְכֹל-תְרוּמָה לְכֹל-קִדְשֵׁי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר-יִקְרִיבוּ לַכֹּהֵן
 और-सब- उठाई-हुई-भेंट सब- पवित्र-वस्तुओं-की पुत्रों-की- इस्राएल-के जो- लाएँ याजक-के-पास
[H3548](#) [H7126](#) [H3478](#) [H6944](#) [H3605](#) [H8641](#) [H3605](#)

לוֹ יְהוָה:
 उसकी होगी
[H1961](#)

“यदि इस्राएल का कोई व्यक्ति यहोवा को विशेष भेंट देता है तो वह याजक जो उसे स्वीकार करता है उसे अपने पास रख सकता है। यह उसकी है।

10
 וְאִישׁ-אֶת-קִדְשָׁיו לוֹ יְהוָה אִישׁ-יְהוָה לוֹ יְהוָה:
 और-पुरुष-की को- पवित्र-वस्तुएँ-उसकी उसकी उसकी होगी उसकी होगी
[H1961](#) [H3548](#) [H5414](#) [H0376](#) [H1961](#) [H6944](#) [H0853](#) [H0376](#)

פ

किसी व्यक्ति को ये विशेष भेंट देनी नहीं पड़ेगी। किन्तु यदि वह उनकी दता है तो वह याजक की होगी।”

11
 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
 और-बोला और-यहोवा से- मूसा कहते-हुए
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

तब यहोवा ने मूसा से कहा:

12
 דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ-אִישׁ כִּי-תִשָּׂא תִשָּׂא אִשָּׁתוֹ
 बोल से- पुत्रों-से इस्राएल-के और-कह उनसे उनसे पुरुष पुरुष जब- भटक-जाए पत्नी-उसकी
[H0802](#) [H7847](#) [H0376](#) [H0376](#) [H0413](#) [H0559](#) [H3478](#) [H0413](#) [H1696](#)

וּמִעַל-בּוֹ וּמִעַל-הָאֵל:
 और-विश्वासघात-करे उसके-विरुद्ध विश्वासघात
[H4604](#) [H4603](#)

“इस्राएल के लोगों से यह कहो, किसी व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता नहीं भी हो सकती है।

וְהָיָא	וְנִסְתָּרָה	אִשָּׁהּ	מֵעֵינַי	וְנִעְלַם	זָרַעַ	שִׁכְבַּת-	אִתָּהּ	אִישׁ	וְשָׁכַב	13
और-वह	और-गुप्त-हो	पति-उसके	आँखों-से	और-छिपा-हो	वीर्य-का	संभोग-	उसके-साथ	पुरुष	और-लेटे	
H1931	H5641	H0376		H5956	H2233	H7902	H0853	H0376	H7901	

נִתְפָּשָׂה:	לֹא	וְהוּא	הָ	אֵין	וְעַד	נִטְמָאָה
पकड़ी-गई	नहीं	और-वह	उसके-विरुद्ध	नहीं-हो	और-गवाह	अशुद्ध-हुई
H8610	H3808	H1931		H0369	H5707	

उस का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक सम्बन्ध हो सकता है और वह इसे अपने पति से छिपा सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता जो कहे कि उसने यह पाप किया। उसका पति उसे कभी जान भी नहीं सकता जो बुराई उसने की है और वह स्त्री भी अपने पति से अपने पाप के बारे में नहीं कहेगी।

או-	נִטְמָאָה	וְהוּא	אִשְׁתּוֹ	אֶת-	וְקָנָא	קִנְיָהּ	רִיחָ-	עֲלָיו	וְעָבַר	14
या-	अशुद्ध-हुई	और-वह	पत्नी-अपनी	के-विषय-में-	और-जलन-करे	जलन-की	आत्मा-	उस-पर	और-आए	
		H1931	H0802	H0853	H7065	H7068	H7307			

נִטְמָאָה:	לֹא	וְהוּא	אִשְׁתּוֹ	אֶת-	וְקָנָא	קִנְיָהּ	רִיחָ-	עֲלָיו	עָבַר
अशुद्ध-हुई	नहीं	और-वह	पत्नी-अपनी	के-विषय-में-	और-जलन-करे	जलन-की	आत्मा-	उस-पर	आए
	H3808	H1931	H0802	H0853	H7065	H7068	H7307		

किन्तु पति शंका करना आरम्भ कर सकता है कि उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध पाप किया है। वह उसके प्रति ईर्ष्या रख सकता है। चाहे वह सच्ची हो चाहे नहीं।

עֲשִׂירַת	עָלֶיהָ	קָרְבָּנָהּ	אֶת-	וְהָבִיא	הַכֹּהֵן	אֶל-	אִשְׁתּוֹ	אֶת-	הָאִישׁ	וְהָבִיא	15
दसवाँ-भाग	उसके-लिए	भेंट-उसकी	को-	और-लाए	याजक-के	के-पास-	पत्नी-अपनी	को-	पुरुष	और-लाए	
H6224			H0853	H0935	H3548	H0413	H0802	H0853	H0376	H0935	

כִּי-	לִבְנָהּ	עָלָיו	יָתֵן	וְלֹא-	שֶׁמֶן	עָלָיו	יִצֹק	לֹא-	שְׁעָרָיו	קָמַח	הָאִיפָה
क्योंकि-	लोबान	उस-पर	दे	और-नहीं-	तेल	उस-पर	डाले	नहीं-	जौ-का	आटा	एपा-का
	H3828		H5414	H3808	H8081		H3332	H3808	H8184	H7058	H0374

עוֹן:	מִזְכָּרַת	זְכָרוֹן	מִנְחָת	הוּא	קִנְיָתוֹ	מִנְחָת
अधर्म-की	याद-दिलानेवाली	स्मरण-की	अन्नबलि	यह	जलन-की	अन्नबलि-है
H5771	H2142	H2146	H4503	H1931	H7068	H4503

यदि ऐसा होता है तो वह अपनी पत्नी को याजक के पास ले जाए। पति एक भेंट भी ले जाएगा। यह भेंट 1/10 एपा जौ का आटा होगा। यह उसे जो के आटे पर तेल या सुगन्धित नहीं डालनी चाहिये। का आटा यहोवा को अन्नबलि है। यह इसलिए दिया जाता कि पति ईर्यालु है। यह भेंट यही संकेत करेगी कि उसे विस्वास है कि उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है।

יְהוָה:	לִפְנֵי	וְהִעֲמֶדָהּ	הַכֹּהֵן	אֹתָהּ	וְהִקְרִיב
यहोवा-के	सामने	और-खड़ी-करे	याजक	उसको	और-निकट-लाए
H3068	H6440	H5975	H3548	H0853	H7126

“याजक स्त्री को यहोवा के सामने ले जाएगा और स्त्री यहोवा के सामने खड़ी होगी।

הַמִּשְׁכָּן	בְּקִרְעָה	יְהוָה	אֲשֶׁר	הָעָפָר	וּמִן-	הַרְשָׁ	בְּכָל־	קְדָשִׁים	מִיֹּם	הַכֹּהֵן	וְלִקַּח	17
निवास-के	फर्श-पर	हो	जो	धूल	और-से-	मिट्टी-के	पात्र-में-	पवित्र	जल	याजक	और-ले	
H4908	H7172	H1961		H6083		H2789	H3627	H6918	H4325	H3548	H3947	

הַמַּיִם:	אֶל-	וְנָתַן	הַכֹּהֵן	יִקַּח
जल-में	में-	और-डाले	याजक	ले
H4325	H0413	H5414	H3548	H3947

तब याजक कुछ विशेष पानी लेगा और उसे मिट्टी के घड़े में डालेगा। याजक पवित्र तम्बू के फर्श से कुछ मिट्टी पानी में डालेगा।

וַתֵּן और-रखे	רֵאשׁ הָאִשָּׁה स्त्री-के सिर	אֶת- को-	וּפָרַע और-खोले	יְהוָה यहोवा-के	לְפָנַי सामने	הָאִשָּׁה स्त्री	אֶת- को-	הַכֹּהֵן याजक	וְהֵעִמִּיר और-खड़ी-करे
H5414	H0802	H0853		H3068	H6440	H0802	H0853	H3548	H5975

וְהָיָה हों	הַכֹּהֵן याजक-के	וּבְיַד और-हाथ-में	הוּא वह	קָנָאת जलन-की	מִנְחָת अन्नबलि	הַזִּכְרוֹן स्मरण-की	מִנְחָת अन्नबलि	אֶת को	כַּפֵּיהָ हथेलियों-उसकी	עַל- पर-
H1961	H3548	H3027	H1931	H7068	H4503	H2146	H4503	H0853	H3709	

מִי जल	הַמְּאָרְרִים शाप-लानेवाले	הַמְּרִים कड़वे
H4325	H0779	H4751

याजक स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा रहने के लिए विवश करेगा। तब वह उसके बाल खोलेगा और उसके हाथ में अन्नबलि देगा। यह जौ का आटा होगा जिसे उसके पति ने ईर्ष्या के कारण उसे दिया था। उसी समय वह विशेष कड़वे जल वाले मिट्टी के घड़े को पकड़े रहेगा। यह विशेष कड़वा जल ही है जो स्त्री को परेशानी पैदा करता है।

וְהַשְׂבִּיעַ और-शपथ-दिलाए	אֶתָּה उसको	הַכֹּהֵן याजक	וְאָמַר और-कहे	אֵל- से-	הָאִשָּׁה स्त्री-से	אִם- यदि-	לֹא नहीं	שָׁכַב लेटा	אִישׁ पुरुष	אֵתָּךְ तेरे-साथ
H7650	H0853	H3548	H0559	H0413	H0802		H3808	H7901	H0376	H0853

וְאִם- और-यदि-	לֹא नहीं	שָׁטִית भटकी	טְמֵאָה अशुद्धता-में	תַּחַת के-अधीन	אִשְׁךָ पति-तेरे	הַנְּקִי निर्दोष-हो	מִמִּי से-	הַמְּרִים जल-कड़वे	הַמְּאָרְרִים शाप-लानेवाले	הָאֵלֹהִים इन-से
H3808	H3808	H7847	H2932	H8478	H0376	H5352	H4325	H4751	H0779	H0428

“तब याजक स्त्री से कहेगा कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे सत्य बोलने का वचन देना चाहिए। याजक उससे कहेगा: यदि तुम दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं सोई हो, और तुमने अपने पति के विरुद्ध पाप नहीं किया है, जबकि तुम्हारा विवाह उसके साथ हुआ है, तो यह कड़वा जल तुमको हानि नहीं पहुँचाएगा।

וְאֵתָּךְ और-तू	כִּי जब	שָׁטִית भटकी	תַּחַת के-अधीन	אִשְׁךָ पति-तेरे	וְכִי और-जब	נִטְמָאת अशुद्ध-हुई	וַיִּתֵּן और-दिया	אִישׁ पुरुष-ने	בְּךָ तुझ-में	אֶת- को-
H7847	H7847	H7847	H8478	H0376		H5414	H3068	H0376	H0853	H0853

שְׁכַבְתָּ वीर्य-अपना	מִבְּלִעְרֵי अलावा	אִשְׁךָ पति-तेरे-के
H7903	H1107	H0376

किन्तु यदि तुमने अपने पति के विरुद्ध पाप किया है, यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ सोई हो तो तुम शुद्ध नहीं हो। क्यों क्योंकि जो तुम्हारे साथ सोया है तुम्हारा पति नहीं है और उसने तुम्हें अशुद्ध बनाया है।

וְהַשְׂבִּיעַ और-शपथ-दिलाए	הַכֹּהֵן याजक	אֶת- को-	הָאִשָּׁה स्त्री-को	בְּשָׁבַעַת शपथ-में	הָאֵלֹהִים शाप-की	וְאָמַר और-कहे	הַכֹּהֵן याजक	לְאִשָּׁה स्त्री-से	יָתוּן दे	יְהוָה यहोवा
H7650	H3548	H0853	H0802	H7621	H0423	H0559	H3548	H0802	H5414	H3068

אוֹתָךְ तुझको	לְאִלָּה शाप-के-लिए	וּלְשָׁבַעַת और-शपथ-के-लिए	בְּתוֹךְ बीच-में	עַמְּךָ लोगों-तेरे	בְּתֵת देकर	יְהוָה यहोवा	אֶת- को-	יָרְכֶךָ जाँघ-तेरी	נִפְלֵת गिरती-हुई	וְאֶת- और-को-
H0853	H0423	H7621	H8432	H7621	H5414	H3068	H0853	H3409	H5307	H0853

בְּטֶנְךָ पेट-तेरा	צָבָה सूजा-हुआ
H0990	H6639

इसलिए जब तुम इस विशेष जल को पीओगी तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तुम्हारा पेट फूल जाएगा और तुम कोई बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकोगी। यदि तुम गर्भवती हो, तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। तब तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे और वे तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेंगे। “तब याजक को स्त्री से यहोवा को विशेष वचन देने के लिए कहना चाहिए। स्त्री को स्वीकार करना चाहिए कि ये बुरी बातें उसे होगी, यदि वह झूठ बोलेगी।

וּבְאֵן और-आँ	הַמַּיִם जल	הַמְּאָרְרִים शाप-लानेवाले	הָאֵלֹהִים ये	בְּמַעֲוֵי अंतड़ियों-तेरी-में	לְצַבּוֹת सुजाने-के-लिए	בְּטֶן पेट	וּלְנִפְל और-गिराने-के-लिए	יָרְךָ जाँघ
H0935	H4325	H0779	H0428	H4578	H6638	H0990	H5307	H3409

וְאָמַרָה और-कहे	הָאִשָּׁה स्त्री	אֲמִין आमीन	אֲמִין आमीन
H0559	H0802	H0543	H0543

याजक को कहना चाहिए, तुम इस जल को लोगी जो तुम्हारे शरीर में परेशानी उत्पन्न करेगा। यदि तुमने पाप किया है तो तुम बच्चों को जन्म नहीं दे सकोगी। और यदि तुम्हारा कोई बच्चा गर्भ में है तो वह जन्म लेने के पहले मर जाएगा। तब स्त्री को कहना चाहिए: मैं वह स्वीकार करती हूँ जो आप कहते हैं।

וְכִתַּב אֶת-הָאֱלֹת הַכֹּהֵן בְּסֵפֶר וּמִחָא אֶל-מֵי הַמָּוִתִים: 23
 और-लिखे को-शाप ये याजक पुस्तक-में और-मिटाए में-जल-में कड़वे
[H4751](#) [H4325](#) [H0413](#) [H3548](#) [H0428](#) [H0423](#) [H0853](#) [H3789](#)

“याजक को इन चैतावनियों को चर्म—प्र पर लिखनी चाहिए। फिर उसे इस लिखावट को पानी में धो देना चाहिए।

וְהִשְׁקָה אֶת-הָאִשָּׁה אֶת-מֵי הַמָּוִתִים וְהַמְאָרְרִים וּבְאוֹרֵי הַמָּוִתִים וְהַמְאָרְרִים 24
 और-पिलाए को-स्त्री-को जल कड़वा शाप-लानेवाला और-आँ और-आँ शाप-लानेवाला जल
[H0779](#) [H4325](#) [H0935](#) [H0779](#) [H4751](#) [H4325](#) [H0853](#) [H0802](#) [H0853](#) [H8248](#)

לְמַרְיִם:
 कड़वाहट-के-लिए
[H4751](#)

तब स्त्री उस पानी को पीएगी जो कड़वा है। वह पानी उसमें जाएगा और यदि वह अपराधी है, तो उसे बहुत परेशानी उत्पन्न करेगा।

וְלָקַח אֶת-הָאִשָּׁה מִיַּד הַכֹּהֵן וְלָקַח אֶת-הַמִּנְחָה אֶת-וְהַגִּיף וְהַגִּיף אֶת-הַמִּנְחָה לְפָנָיו יְהוָה 25
 और-ले को-स्त्री-के हाथ-से याजक और-ले अन्नबलि अन्नबलि को-हिलाए और-हिलाए अन्नबलि को-अन्नबलि अन्नबलि सामने
[H3068](#) [H6440](#) [H4503](#) [H0853](#) [H7068](#) [H4503](#) [H0853](#) [H0802](#) [H3027](#) [H3548](#) [H3947](#)

וְהִקְרִיב אֶת-הָאִשָּׁה אֶת-הַמִּזְבֵּחַ:
 और-निकट-लाए उसको के-पास-वेदी-के
[H4196](#) [H0413](#) [H0853](#) [H7126](#)

“तब याजक उस अन्नबलि को उससे लेगा। (ईर्ष्या के लिए भेंट) और उसे यहोवा के सामने उठाएगा और उसे वेदी तक ले जाएगा।

וְקִמֵץ וְקִמֵץ הַכֹּהֵן מִן-הַמִּנְחָה אֶת-אֲזֵכָרְתָּהּ וְאֶת-יְשִׁיעָה וְאֶת-יְשִׁיעָה 26
 और-मुट्टी-भरे याजक से-अन्नबलि-से को-अन्नबलि-से और-जलाए और-जलाए वेदी-पर और-बाद-में पिलाए
[H8248](#) [H4196](#) [H0234](#) [H0853](#) [H4503](#) [H3548](#) [H7061](#)

אֶת-הָאִשָּׁה אֶת-הַמָּוִתִים:
 को-स्त्री-को जल को-जल
[H4325](#) [H0853](#) [H0802](#) [H0853](#)

तब याजक अपनी अंजली में अन्न भरेगा और उसे वेदी पर रखेगा। तब वह उसे जलाएगा। उसके बाद, वह स्त्री से पानी पीने को कहेगा।

וְהִשְׁקָה אֶת-הַמָּוִתִים וְהִיָּתָה אִם-נִשְׁמָאָה וְהִיָּתָה מֵעַל בְּאִישָׁהּ 27
 और-पिलाए को-जल और-होगा यदि-अशुद्ध-हुई और-विश्वासघात-किया और-विश्वासघात-किया पति-के-विरुद्ध विश्वासघात
[H1961](#) [H4325](#) [H0853](#) [H8248](#) [H0376](#) [H4604](#) [H4603](#)

וּבְאוֹרֵי הַמָּוִתִים הַמְאָרְרִים הַמְאָרְרִים הַמְאָרְרִים וְהַמְאָרְרִים וְהַמְאָרְרִים 28
 और-आँ
[H1961](#) [H3409](#) [H5307](#) [H0990](#) [H6638](#) [H4751](#) [H0779](#) [H4325](#) [H0935](#)

הָאִשָּׁה בֵּין-בְּרֵב עֲמָה:
 स्त्री शाप-के-लिए बीच-में लोगों-उसके
[H7130](#) [H0423](#) [H0802](#)

यदि स्त्री ने पति के विरुद्ध पाप किया होगा, तो पानी उसे परेशान करेगा। पानी उसके शरीर में जाएगा और उसे बहुत कष्ट देगा और कोई बच्चा जो उसके गर्भ में होगा, पैदा होने से पहले मर जाएगा और वह कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। सभी लोग उसके विरुद्ध हो जायेंगे।

וְאִם-לֹא נִשְׁמָאָה הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה 28
 और-यदि-नहीं अशुद्ध-हुई स्त्री और-शुद्ध-है और-शुद्ध-है और-निर्दोष-होगी और-निर्दोष-होगी और-गर्भवती-होगी और-गर्भवती-होगी बीज-से
[H2233](#) [H2232](#) [H5352](#) [H1931](#) [H2889](#) [H0802](#) [H3808](#)

किन्तु यदि स्त्री ने पति के विरुद्ध पाप नहीं किया है तो वह पवित्र है, फिर याजक घोषणा करेगा कि वह अपराधी नहीं है और बच्चों को जन्म देने के योग्य हो जाएगी।

וְנִטְמָאָהּ:	אִשָּׁה	תַּחַת	אִשָּׁה	תִּשְׁטֹטֶה	אֲשֶׁר	הַקְּנָאת	תַּוְרַת	זֹאת	29
और-अशुद्ध-हो	पति-अपने	के-अधीन	स्त्री	भटके	जब	जलन-की	व्यवस्था	यह-है	
	H0376	H8478	H0802	H7847		H7068	H8451	H2063	

“इस प्रकार यह ईर्ष्या के विषय में नियम है। तुम्हें यही करना चाहिए यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति के विरुद्ध पाप करती है।

אִשְׁתּוֹ	אֶת-	וְקָנָא	קָנָא	רוּחַ	עָלָיו	תֵּעָבֵר	אֲשֶׁר	אִישׁ	אוֹ	30
पत्नी-अपनी	के-विषय-में-	और-जलन-करे	जलन-की	आत्मा	उस-पर	आए	जिस-पर	पुरुष	या	
H0802	H0853	H7065	H7068	H7307				H0376		

הַזֹּאת:	הַתּוֹרָה	כָּל-	אֶת	הַכֹּהֵן	לָהּ	וַעֲשֵׂה	יְהוָה	לְפָנַי	הָאִשָּׁה	אֶת-	וְהַעֲמִיד
यह	व्यवस्था	सब-	को	याजक	उसके-लिए	और-करे	यहोवा-के	सामने	स्त्री-को	को-	और-खड़ी-करे
H2063	H8451	H3605	H0853	H3548			H3068	H6440	H0802	H0853	H5975

या यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है और अपनी पत्नी के सम्बन्ध में शंका करता है कि उसने उसके विरुद्ध पाप किया है तो व्यक्तिको यही करना चाहिए। याजक को कहना चाहिए कि वह स्त्री यहोवा के सामने खड़ी हो। तब याजक इन सभी कार्यों को करेगा। यही नियम है।

פ	עֲוֹנוֹת:	אֶת-	תִּשָּׂא	הַחוּא	וְהָאִשָּׁה	מֵעֵוֹן	הָאִישׁ	וְנָקָה	31
—	अधर्म-अपना	को-	उठाएगी	वह	और-स्त्री	अधर्म-से	पुरुष	और-निर्दोष-होगा	
	H5771	H0853	H5375	H1931	H0802	H5771	H0376	H5352	

पति कोई बुरा करने का अपराधी नहीं होगा। किन्तु स्त्री कष्ट उठाएगी, यदि उसने पाप किया है।”